

## प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक: 30.09.2021

लूटपाट की घटना कारित करने वाले गिरोह के 04 शातिर सदस्य थाना खुर्जा नगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार, कब्जे से लूटे गये 3500/- नकद, 02 ड्राइविंग लाइसेंस, पेन कार्ड, मोबाइल, व घटना में प्रयुक्त ऐसेंट कार आदि

### बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर श्री संतोष कुमार सिंह के निर्देशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक देहात श्री बजरंग बली चौरसिया के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी खुर्जा श्री संग्राम सिंह निकट पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक थाना खुर्जा नगर श्री नीरज कुमार सिंह के नेतृत्व में दिनांक 29/30.09.2021 की रात्रि में थाना खुर्जा नगर पुलिस टीम क्षेत्र में देख-रेख शान्ति व्यवस्था एवं संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चैकिंग में मामूर थी कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि शिकारपुर तिराहे पर एक ऐसेंट गाडी में चार बदमाश बैठे है, जो कोई घटना करने की फिराक में है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस टीम शिकारपुर तिराहे पर पहुंची तो देशी शराब के ठेके सामने सडक किनारे खडी एक कार में से एक अभियुक्त पुलिस टीम को देखकर भागने लगा जिसका पुलिस टीम द्वारा पीछा कर घेराबन्दी कर गिरफ्तार किया गया तथा कार में सवार अन्य तीन अभियुक्तों को भी ऐसेंट कार, लूटी गयी नकदी आदि सामान सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की।

### गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1. इन्द्रपाल पुत्र केदार सिंह निवासी ग्राम नंगला भीम सेन थाना सहावर जनपद कासगंज ।
2. राजेश पुत्र सुभाष सिंह निवासी ग्राम हरसैना थाना ढोलना जनपद कासगंजा।
3. विकाश पुत्र लखपत निवासी ग्राम नंगला हसी थाना दादो जनपद अलीगढ़।
4. सूरजपाल पुत्र ओमपाल निवासी उपरोक्त

### बरामदगी-

- 1- 01 ऐसेंट कार नं0-यूपी-14जीटी-8499(घटना में प्रयुक्त)
- 2- 3070/- रुपये नकद, 01 पेन कार्ड, 01 ड्राइविंग लाइसेंस, 01 मोबाइल फोन (सम्बन्धित मुअसं- 1079/21 धारा 392,420 भादवि थाना खुर्जा नगर)
- 3- 430/- रुपये, 01 ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ फोटो ग्राफ (सम्बन्धित मुअसं- 1914/21 धारा 392 भादवि थाना विजयनगर)
- 4- 02 छूरी

**अभियुक्तगण शातिर किस्म के लुटेरे है जिनके द्वारा अपनी कार को भिन्न-भिन्न स्थानों पर सडक किनारे खडी कर उसमें सवारी के रूप में व्यक्तियों को बैठाकर रास्ते में उनसे लूटपाट की घटनाएं कारित की जाती है।**

अभियुक्तों द्वारा दिनांक 24.09.2021 की रात्रि में जनपद गाजियाबाद के थाना विजय नगर क्षेत्र दादरी बाईपास पर एक व्यक्ति को अपनी कार में बैठाकर उससे पर्स जिसमें 930/- रुपये, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटोग्राफ थे, छीन लिये थे जिसके सम्बन्ध में थाना विजयनगर पर मुअसं- 1914/21 धारा 392 भादवि पंजीकृत है। इस घटना से सम्बन्धित अभियुक्तों से 430/- रुपये, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटो ग्राफ बरामद हुए है।

इसके अतिरिक्त अभियुक्तों द्वारा दिनांक 25-09-2021 की रात्रि में थाना खुर्जा नगर क्षेत्रान्तर्गत खुर्जा से पहासू जाने वाले रोड पर 01 व्यक्ति को अपनी कार में बैठाकर उससे 5000/- रुपये, मोबाइल फोन, ड्राइविंग लाइसेंस, पेनकार्ड, मार्कशीट, आधार कार्ड आदि छीनने की घटना कारित की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना खुर्जा नगर पर मुअसं- 1079/21 धारा 392,420 भादवि पंजीकृत है। इस घटना से सम्बन्धित अभियुक्तों से 3070/- रुपये, ड्राइविंग लाइसेंस, पेन कार्ड, मोबाइल फोन बरामद हुए है।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना खुर्जा नगर पर मु0अ0सं0-1086 व 1087/21 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम के नाम-

- 1- श्री नीरज कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना खुर्जा नगर ।
- 2- उ0नि0 रामकुमार, का0 सलीम खान, का0 सुनील कुमार, का0 यौगेन्द्र सिंह, का0 बलजोर सिंह, का0 विरेन्द्र कुमार